

317
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बाँका-1

Email ID- ee.bankal@gmail.com

पत्रांक-1609

/ बाँका,

दिनांक- 08/08/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाँका-1 ।

सेवा में,

शाखा,
Bank of Baroda
BANKA.

विषय - Fixed Deposit / Bank Guarantee का सत्यापन एवं प्रतिज्ञिप्त होने की पुष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक द्वारा कार्य निविदा हेतु आपकी शाखा से निर्गत एवं अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिज्ञिप्त Fixed Deposit / Bank Guarantee समर्पित किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत है-

1. संवेदक का नाम- M/S Balajee Construction

2. Work Name - MR-N/23-24 BANKA 1/07

Sl.No.	FD/BG No.	Date of Issue	Amount
1	35580300009579	08.08.2024	95000.00
2.	35580300009578	08.08.2024	1895000.00
TOTAL			1990000.00

अतः उक्त Fixed Deposit / Bank Guarantee को सत्यापित करते हुये निबंधित डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

*For are issued
by Branch*

ac

8/8/24


विश्वासभाजन

*Prifam
08.08.24*

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाँका-1

*40
8/8/24*

Pledge to E E RWD Works Div. Bank of Baroda



[Handwritten Signature]

जमा राशि सूचना / Deposit Confirmation Advice

M/S BALAJEE CONSTRUCTION	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35580300009578
AT BANGAMA PO RANGA	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0808242931
PS BALHAR DIST BANKA	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	DXS001294
813104	हयवहार खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	ANY ONE OF THE AUTHORIZED SIGNATORIES		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1895000	08-08-2024	7.25	0 Months 399 Days	11-09-2025	2049919

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज 3. यदि अवधि अवधि से ठीक हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण 15 वार्षिक पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा 4. कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण 15 वार्षिक पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा 5. फॉर्म 15G और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है 6. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पुरा होने से पूर्व एक नया 15G/ 15एच (जहाँ लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ब्याज पर कर कटौती की जाएगी 7. फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा 8. परिपक्वता आहरण क्लॉज 9. यदि 1 करोड़ से कम की जमा राशि को समायुक्त बंद करने पर 1% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् इसी अवधि के ब्याज की तिथि पर लागू काटें दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा 10. यदि 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समायुक्त बंद करने पर 1.5% ब्याज का प्रावधान है अर्थात् इसी अवधि के ब्याज पर देक से रकई जाने वाली अवधि के लिए लागू काटें दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समायुक्त आहरण के लिए आवश्यक नोटिस के अंतराल से कम से कम 31 दिन पहले बैंक की सूचना दी जाती होगी 11. गैर-प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause. 3. For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 4. For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 5. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only 6. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 7. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 8. Premature Withdrawal Clause. 9. Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. 10. Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 11. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

[Handwritten Signature]